



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 92 राँची, मंगलवार, 17 माघ, 1939 (श०)  
6 फरवरी, 2018 (ई०)

---

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

-----  
अधिसूचना  
5 फरवरी, 2018

**विषय:-** सरकारी, भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर निर्णय हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने के संबंध में ।

संख्या-4/स.भू.(नीति)-17/2018-492/रा.,-- सरकारी, भूमि की लीज बंदोबस्ती/नवीकरण की नीति में समरूपता लाने व सरकारी भूमि पर अवैध दखल-कब्जा की अवधि की गणना हेतु समरूप तिथि निर्धारण एवं तत्संबंधी अन्यान्य विषयों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाना है ।

उक्त विषयों से संबंधित कार्यावली निम्नानुसार है :-

1. सरकारी भूमि की बंदोबस्ती/लीज बंदोबस्ती के संबंध में भूमि दर का सरलीकरण ।
2. खासमहाल भूमि लीज नवीकरण की पद्धति व गणना के अनुरूप सरकारी भूमि के लीज का नवीकरण ।
3. रिक्त पड़े तथा **Resume** किये गये खासमहाल की भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दर का सरलीकरण ।
4. शहरी/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं के साथ सरकारी भूमि बंदोबस्ती पर रोक से संबंधित संकल्प संख्या-307/संको०, दिनांक **23 जून, 2004** का निरस्तीकरण एवं सरलीकरण ।
5. अवैध दखल कब्जा की अवधि से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-6144/रा०, दिनांक **21 दिसम्बर, 2017** के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-334/रा०, दिनांक **14 मई, 2009** में समरूपता स्थापित करना ।
6. अन्यान्य ।

अतएव उक्त कार्यावली पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार को अनुशंसा करने हेतु निम्नवत् उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती है :-

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. मुख्य सचिव, झारखण्ड                                | - अध्यक्ष।    |
| 2. विकास आयुक्त, झारखण्ड                              | - सदस्य।      |
| 3. अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड      | - सदस्य।      |
| 4. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड | - सदस्य सचिव। |

यह उच्च स्तरीय समिति 15 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**उदय प्रताप,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----